



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2008/माघ 29, 1929

No. 246]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2008/MAGHA 29, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2008

सं. 80 (आरई-2007)/2004-2009

विषय : गैर-बासमती चावल के निर्यात पर निषेध—
बंगलादेश में निर्यात के लिए छूट ।

का.आ. 356(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैरा 1.3 और पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 3(2) और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा यथा संशोधित अधिसूचना सं. 38 (आरई-2007)/2004-2009, दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 के पैराग्राफ 2 के अंत में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित अतिरिक्त परिवर्धन करती है :—

“2.9 इस अधिसूचना द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात पर लगाया गया निषेध वेस्ट बंगाल असेंशियल कर्मांडिटीज सप्लाय कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीईसीएससी लि.) के माध्यम से बंगलादेश को 50,000 मीट्रिक टन गैर बासमती चावल के निर्यात पर लागू नहीं होगा । डब्ल्यूबीईसीएससी लि. द्वारा 50,000 मीट्रिक टन गैर-बासमती चावल की प्राप्ति पश्चिम बंगाल राज्य में से ही की जाएगी ।”

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

[फा. सं. 01/91/180/846/एम '08/पीसी-III]

आर. एस. गुजराल, विदेश व्यापार महानिदेशक
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2008

No. 80 (RE-2007)/2004-2009

Subject : Prohibition on export of non-basmati rice—
exemption for export to Bangladesh.

S.O. 356(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and Section 3(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Para 1.3 and Para 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2004-2009, the Central Government hereby makes the following further addition with immediate effect at the end of Paragraph 2 of Notification No. 38(RE-2007)/2004 - 2009, dated the 15th October, 2007 as amended :—

“2.9 The prohibition imposed by this Notification on export of non-basmati rice shall not be applicable to export of 50,000 MT of non-basmati rice to Bangladesh through the West Bengal Essential Commodities Supply Corporation Limited (WBECSC Ltd.). This 50,000 MT of non-basmati rice shall be procured by the WBECSC Ltd. exclusively from within the state of West Bengal.”

2. This issues in public interest.

[F. No. 01/91/180/846/AM'08/PC-III]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade
and ex-officio Addl. Secy.